



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 14 जनवरी, 2022

पौष 24, 1943 शक सम्वत्

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,

ASHOKA ROAD,

NEW DELHI-110001

Dated: 12<sup>th</sup> January, 2022

#### DIRECTION

No. 576/3/EVM/2022/SDR/Vol.-I:-Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in all the Constituencies for the General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh announced *vide* the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/3/2022 dated 8<sup>th</sup> January, 2022, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)] are available for taking the poll in all the Assembly constituencies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies (i) all the Assembly Constituencies of Goa, Punjab and Uttarakhand to be notified on 21-01-2022, (2) all the Assembly Constituencies of Manipur to be notified on 01-02-2022 & 04-02-2022 and (3) all the Assembly Constituencies of Uttar Pradesh to be notified on 14-01-2022,

21-01-2022, 25-01-2022, 27-01-2022, 01-02-2022, 04-02-2022 & 10-02-2022 as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT Printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printer as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By order,  
ASHWANI KUMAR MOHAL,  
Secretary.

By order,  
AJAY KUMAR SHUKLA,  
Secretary.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001  
दिनांक : 12 जनवरी, 2022

### निदेश

सं० 576/3/ईवीएम/2022/एसडीआर/खंड-1:—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाय, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2—यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3—यतः, आयोग ने निर्वाचन आयोग, के दिनांक 8 जनवरी, 2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे०नो०/03/2022 के तहत घोषित गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और आयोग संतुष्ट है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) एवं वीवीपैट प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4-अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा (1) गोवा, पंजाब और उत्तराखण्ड के सभी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन के लिए दिनांक 21.01.2022 को अधिसूचित की जाने वाली (2) मणिपुर के सभी विधान सभाओं के लिये दिनांक 01.02.2022 और 04.02.2022 को अधिसूचित की जाने वाली (3) और उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभाओं के लिये दिनांक 14.01.2022, 21.01.2022, 25.01.2022, 27.01.2022, 01.02.2022, 04.02.2022 एवं 10.02.2022 को अधिसूचित की जाने वाली सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अन्तर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकार्ड किए जाएंगे।

5-निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकार्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,  
अश्वनी कुमार मोहल,  
सचिव।

आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव।